

Possibility और probability

सबसे पहले यह जान लेते हैं कि **possibility** और **probability** में क्या अंतर है?

Possibility और **probability** में बहुत ही छोटा सा अंतर है। हिंदी में दोनों के ही अर्थ एक ही होता है - संभावना। जब किसी कार्य या **event** के होने की संभावना होती है तो उसे **Possibility** कहते हैं जबकि जब किसी कार्य के होने की सम्भावना बहुत ज्यादा हो तो उसे **probability** कहते हैं।

(Possibility is when there is a chance that something may happen or be true while probability is the likelihood of something happening or being true.)

Until yesterday, the project was just a possibility, but now it has become a real probability. (कल तक project होने की संभावना थी, यह हो सकता था, पर अब यह सच में संभव है।)

सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में **possibility** को कैसे व्यक्त करें -

जब हम **general statements** की बात करते हैं कि कुछ **possible** है, कोई काम **possible** है तो **can** का use करते हैं -

It can be very cold in winter. सर्दियों में यहां बहुत ठंड हो सकती है। (It is sometimes very cold in winter)

You can easily lose your way in the dark. आप आसानी से अंधेरे में अपना रास्ता खो सकते हैं। (लोग अक्सर अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं।)

People can be really rude. (लोग वास्तव में अशिष्ट हो सकते हैं।)

It can be really hard to find a speaking partner to practise English with. (अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करने के लिए बोलने वाला साथी ढूंढना वास्तव में कठिन हो सकता है।)

ये सभी **general statement** है, **specific** नहीं। आसान शब्दों में ये सब **possible** (संभव) है पर यह नहीं कहा जा रहा कि बिलकुल ऐसा ही होगा।

Could का प्रयोग **can** के **past tense** की तरह किया जा सकता है

I remember winters in London. Weeks could go by without ever seeing the sun! (मुझे अमेरिका में सर्दियां याद हैं। सूरज को देखे बिना सप्ताह गुजर जाते थे।)

जब हम **present** और **future** के बारे में अनिश्चित (**uncertain**) और **unsure** हो, तो **modal verbs** 'could' 'might' और 'may' का use करते हैं। ये **express** करते हैं कि **something is possible but not certain or guaranteed**.

It may rain tomorrow. (कल बारिश हो सकती है। - Slightly stronger Possibility)

It might rain tomorrow. (कल बारिश हो सकती है। - Weak Possibility)

I might come and visit you next year, if I can save enough money. (यदि मैं पर्याप्त धन बचा सका, तो मैं अगले वर्ष आपसे आकर मिल सकता हूँ। Weak Possibility)

They may come by car. वे कार से आ सकते हैं। (Perhaps/Maybe they will come by car. - Slightly stronger Possibility)

('might' और 'may' लगभग समान ही होते हैं बस उनमें बहुत थोड़ा सा ही **difference** होता है। 'might' **express** करता है कि **outcome** थोड़ा कम सम्भव है।)

'could' का use **future** के बारे में **uncertain** और **unsure** को **express** करने के लिए किया जाता है. **may**, **might** और **could** के बाद **verb** की **1st form** का use किया जाता है।

हम **could have** और **might have** का use उस संभावना को **show** करने में करते हैं जो अभी **possible** हो या फिर **past** में कभी **possible** थी जैसे -

It's ten o'clock. They might have arrived now. (दस बजे हैं। वे अब आ गए होंगे।)

The rain might have stopped by now. (अब तक बारिश रुक गयी होगी।)

You might have read in the newspaper. (शायद आपने newspaper में पढ़ा होगा।)

I might have misjudged you. (हो सकता है मैंने आपको गलत समझा हो।)

Could have का अर्थ है सकता था/ सकती थी या सकते थे।

I could have gone to Mumbai. (मैं मुंबई जा सकता था।)

She could not have eaten junk food. (वह जंक फूड नहीं खा सकती थी।)

You could have bought the cheaper jacket. (आप सस्ती जैकेट खरीद सकते थे।)

The boy could have run away from the bullies, but he decided to confront them. (लड़का दबंगों से भाग सकता था, लेकिन उसने उनका सामना करने का फैसला किया।)

(**might have/ could have** के बाद **verb** की **3rd form** का use करते हैं।)

अब बात करते हैं **impossibility** की जो **possible** नहीं है या जिसके **possible** होने की बहुत कम संभावना है।

इसे बताने के लिए **can't** और **couldn't** का **use** करते हैं -

That can't be true. (यह सच नहीं हो सकता।)

You cannot be serious. (आप इतने गंभीर नहीं हो सकते।)

We knew it could not be true. (हम जानते थे कि यह सच नहीं हो सकता था।)

He was obviously joking. He could not be serious. (वह साफ़ साफ़ मज़ाक कर रहा था। वह इतना गंभीर नहीं हो सकता था।)

Probability

Probability मतलब **how likely something is to happen** (कुछ होने की कितनी संभावना है)-

जब हम **future** के बारे में बात करते हैं और **confident** होते हैं कि यह काम होगा ही, उस समय हम **will** का **use** करते हैं जैसे -

The sun will rise tomorrow. (कल सूरज उगेगा।) इस बात के लिए हम पूरी तरह से **confident** हैं कि यह होगा ही।

Neha will be late. (नेहा लेट होगी।) इसके लिए मैं इसलिए **sure** हो क्योंकि वो अक्सर लेट होती है।)

If you don't take a umbrella, you will get wet. It's raining outside. (यदि आप छाता नहीं लेते हैं, तो आप भीग जाएंगे। बाहर बारिश हो रही है।) इस **sentence** में एक **confidence** है कि आप भीग ही जाएंगे।

इसी तरह जब **future** के लिए आपको किसी को आश्वासन देना हो और **confirm** करना हो कि **something is true**, उस समय भी **will** का **use** किया जाता है जैसे -

You will pass the exam, don't worry. (आप परीक्षा पास कर लेंगे, चिंता न करें।)

(इस **sentence** में आप पूरी तरह **confident** नहीं है पर यहाँ पर आप सामने वाले के ऊपर एक विश्वास दिखा रहे हैं।)

even though you're really not sure that's true. She's using 'will' to tell you that she's confident, she believes in you.

अब अगर आप बिलकुल **sure** है की कुछ नहीं होने वाला तो आप '**will not**' या '**won't**' का **use** करेंगे जैसे -

If they walk, they won't arrive in time. (यदि वे वॉक करते हैं, तो वे समय पर नहीं पहुंचेंगे।)

जब हम वर्तमान समय (**present**) की बात करते हैं तो **must** का **use** करते हैं (यह बताने के लिए कि हम **confident** हैं और **sure** भी उस कार्य के लिए जो **present** में हो रहा है और हमारे पास उसका **reason** भी है यह बताने के लिए कि वह क्यों हो रहा है।) जैसे -

The baby is crying. He must be hungry. (बच्चा रो रहा है। वह भूखा होना चाहिए।)

They didn't eat any of the meat. They must be vegetarian. (वे कोई भी मांस नहीं खाते थे। उन्हें शाकाहारी होना चाहिए।)

जब हमें **past** की किसी घटना के बारे में बताना हो तो हम **must have** का प्रयोग करेंगे (**when you're quite sure that something happened**) जैसे -

After flying for 36 hours, you must have felt exhausted. (36 घंटे की उड़ान भरने के बाद, आपको थकावट महसूस हुई होगी।)

You look happy. You must have heard the good news. (आप खुश दिखते हैं। आपने जरूर अच्छी news सुन ली होगी।)

हम **should** का **use** भी करते हैं यह बताने के लिए कि कुछ होना **possible** हैं, कुछ संभावना है। हम **100 % sure** नहीं है पर विश्वास है कि होगा। जैसे -

They left an hour ago, they should be here by now. (वे एक घंटे पहले निकल गए थे, उन्हें अब यहां होना चाहिए।)

If they take the car, they should arrive by three.

Ask Vipul. He should know. (विपुल से पूछो। उसे पता होना चाहिए।)

To talk about the past, हम 'should have' का use करते हैं -

I didn't realise he was unwell. We should have offered to take him to the doctor. (मुझे नहीं पता था कि वह अस्वस्थ था। हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने की पेशकश करनी चाहिए थी।)

It's nearly eleven o'clock. They should have arrived by now. (लगभग 6 बज रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था।)

Predictions, जिसे हिंदी में हम भविष्यवाणी करना भी कहते हैं, अब उन्हें कैसे बताएँगे यह भी जान लेते हैं -

'Be going to' का use future events जो बहुत पास है या clearly जिन्हें देख सकते हैं उन्हें बताने के लिए किया जाता है। इस तरह की predictions present evidence पर based होती है। जैसे -

I'm going to face an interview. (मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ।)

Look at the clouds; it's going to rain. (बादलों को देखो: बारिश होने वाली है।)

Will/ shall का use ऐसी predictions जो personal judgement, opinion or intuition पर आधारित हो ना कि present evidence पर, उन्हें व्यक्त करने के लिए किया जाता है -

I don't think I will pass the exam. (मुझे नहीं लगता मैं exam में पास हो पाऊंगा)

Whatever happens, we shall always be best friends. (कुछ भी हो जाए, हम हमेशा best friends रहेंगे।)

Showing sympathy (संवेदना व्यक्त करें)

इसी के साथ conversation में एक बहुत ही important part आता है सहानुभूति (sympathy) व्यक्त करना। समझ ही नहीं आता की किस तरह से इंग्लिश में सहानुभूति दें। तो आज आपकी यह problem भी solve कर देते हैं।

Sentence को I'm sorry to hear that...से शुरू करना, सबसे common तरीका है यह show करने का आप किसी के दुःख से दुखी है। जैसे -

I'm sorry to hear that you've lost your job. (मुझे यह जानकर खेद है कि आपने अपनी नौकरी खो दी है।)

I'm sorry to hear that your father is ill. (मुझे यह सुनकर खेद है कि आपके पिता बीमार हैं।)

I'm sorry to hear that your bike has been stolen. (मुझे यह सुनकर खेद है कि आपकी बाइक चोरी हो गई है।)

I'm sorry to hear that you've failed in your test. (मुझे यह सुनकर खेद है कि आप अपने टेस्ट में फेल हो गए।)

I'm sorry to hear that you had an accident. (मुझे यह जानकर खेद है कि आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी।)

जब किसी को बोलना हो की कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा है तो What a pity! / What a shame! जैसे phrases का use किया जा सकता है।

It's a shame... is used to express your disappointment at something bad that has happened जैसे

-

It's a shame that you have lost your job. (यह शर्म की बात है कि आपने अपनी नौकरी खो दी।)

It's a shame that you didn't pass the test. (यह शर्म की बात है कि आपने परीक्षा पास नहीं की।)

It's a pity that we lost the match. (यह अफ़सोस/ शर्म की बात है कि हम मैच हार गए।)

It's a shame that she doesn't know how to behave. यह शर्म की बात है कि वह नहीं जानती कि कैसे व्यवहार करना है।)

Phrases to express sympathy

That's too bad.

That's so sad.

I'm sorry. What bad luck!

I hope things get better soon.

It would be OK soon.

I hope you feel better soon.

What a pity!

Oh, that's terrible.

Be patient, it would be better soon.

I can't tell you how sorry I am.

Oh, I am sorry to hear that .

I take my sympathy to you.

You must be very upset about it.

I sympathize with your condition.

How to respond

It's very kind of you.

Thank you very much.

It would be Ok, thanks.

Thanks for your sympathy.

Thanks for your support.

ये सब बातें sympathy व्यक्त करते समय avoid करें -

Now you can start moving on with your life.

I don't know what I would do if my [deceased's relationship to the bereaved] died.

At least the death was quick so there wasn't pain/slow so you had a chance to say goodbye.

Don't worry, you'll feel better soon.

How to encourage someone

अब इसी के साथ यह भी सीख लेते हैं की किसी को अपने सही शब्दों से कैसे **encourage** किया जाए
काम जल्दी करने के लिए हम **sentence** को **Hurry up!** से **start** कर सकते हैं -

Hurry up! They're all waiting for us. (जल्दी करो! वे सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।)

Hurry up! We're already late. (जल्दी करो! हमें पहले ही देर हो चुकी है।)

किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करने के लिए **Come on!** का **use** करते हैं -

Come on! We'll be late. (जल्दी करो ! हम लेट हो जाएंगे।)

Come on! We're going to be late for the film. (जल्दी करो! हम फिल्म के लिए लेट हो जाएंगे।)

Go for it! बहुत ही **informal** तरीका है किसी को कुछ करने के लिए **encourage** करने का -

'I'm going to try my luck in the stock market.' 'Go for it!'

'I'm going to apply for that job.' 'Go for it!'

'I'm going to buy that flat.' 'Go for it!'

कुछ phrases जो आप किसी को **encourage** करने के लिए **use** कर सकते हैं -

Come on! You can do it!

Go for it!

Don't be scared.

I am here for you.

Be brave!

Give it a try

What do you have to lose?

It's worth a shot.

You may as well.

Keep going!

Keep pushing.

Believe in yourself.

Don't give up.

You are doing great!

Tip of the Day

Foreign Words and Phrases Used in Everyday English

PRO BONO (PUBLICO)

Origin: Latin

Translation: For the public good

Meaning: Pro bono is the short form of 'Pro bono Publico' जिसका अर्थ है कोई ऐसा काम जो की जनता के हित में या उनकी भलाई के लिए किया जाए, खासकर कोई **legal help** जिसके बदले में कुछ कम फीस या पूरा ही खर्च ना लिया जाए।

The lawyer's pro bono work with the homeless is something that we all should praise and promote.

DE FACTO

Origin: Latin

Translation: In fact

Meaning: एक सार्वजनिक हकीकत/वास्तविकता या फिर एक ऐसा तथ्य जो बेशक कानूनी ना हो मगर मान्य हो।

John became the de facto man of the house when his father was killed in a car accident.

BONA FIDE

Origin: Latin

Translation: With good faith

Meaning: This simply means something that is genuine, real or done with honesty.

Bona fide का अर्थ 'नेक-नियति' व असल होता है।

The jeweller stated that the large diamond was bona fide and valuable.

IPSO FACTO

Origin: Latin

Translation: Itself Fact

Meaning: Ipso facto का अर्थ है स्वतः सिद्ध।

The enemy of one's enemy may be ipso facto a friend.

MI CASA, SU CASA

Origin: Spanish

Translation: My house is your house

Meaning: Mi casa Su casa एक **expression** है जिसका प्रयोग घर में आए मेहमानों को **comfortable** करने के लिए किया जाता है।

Please don't be so formal dear and just enjoy the party. Mi casa, Su casa!

A LA CARTE

Origin: French

Translation: According to the (menu) card

Meaning: इस **phrase** का **use mostly** किसी **restaurant** में ही किया जाता है। **A restaurant generally have either a 'buffet' which is a set and pre-decided meal or an 'à la carte' menu** जिसके आइटम्स को आप अपनी मर्जी से **separately order** कर सकते हैं।
Minimum à la carte order for delivery is two meals.

VIS-à-VIS

Origin: Old French

Translation: Face to face

Meaning: इसका वास्तविक अर्थ है आमने सामने। **Vis-à-Vis** का इस्तेमाल तुलनात्मक स्थिति में भी किया जाता है जो की एक तरह से आमने सामने की **situation** को ही दर्शाता है।
Sam is a little scared about the vis-à-vis meeting with his boss.

QUID PRO QUO

Origin: Latin

Translation: Something for something

Meaning: जब किसी काम के बदले में कोई **advantage** या **favour** की मांग की जाए तो उसे **quid pro quo** यानी प्रतिदान कहते हैं।

Our duty is to make our country a better place for all of us, without hidden agendas or quid pro quos.

ERGO

Origin: Latin

Translation: Therefore

Meaning: Ergo is just another word for 'therefore' and 'so' जिनका अर्थ है 'इसलिए'।

After all, we're all human – ergo, we make mistakes.

HASTA LA VISTA

Origin: Spanish

Translation: See you later/until the (next) meeting

Meaning: यह एक **famous Spanish expression that is used to say 'goodbye'**. **Hasta la vista** का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी जगह, काम या इंसान से एक लंबे समय के लिए विदा लेते हैं।
I'm going to Europe next week for my new job. Hasta la vista my love.